

Roll No.

[2]

E-120

E-120

M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)

EXAMINATION, May-June, 2021

(Optional—Specialization)

[Optional Group (B) : Management]

Paper B—I

FINANCIAL MANAGEMENT

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

खण्ड—अ

प्रत्येक 1

(Section—A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. वित्त प्रबन्धक का कार्य सीमित होता है :

(अ) कोष जुटाने तक

(ब) रोकड़ के प्रबन्ध तक

(स) कोष जुटाने और उसके प्रभावी उपयोग तक

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The job of a finance manager is confined to :

(a) Raising of funds

(b) Management of cash

(c) Raising of funds and their effective utilisation

(d) None of the above

2. निम्नलिखित में से कौन-सा निर्णय वित्त कार्य का अवयव नहीं है ?

(अ) विनियोग निर्णय

(ब) वित्तीय निर्णय

(स) लाभांश निर्णय

(द) व्यवसाय स्थापना से सम्बद्ध निर्णय

Which of the following decisions is not the component of finance function ?

(a) Investment decision

(b) Financing decision

(c) Dividend decision

(d) Decision regarding settling up a business

3. पुनर्भुगतान अवधि से आशय है :

(अ) अवधि जिसमें भुगतान किया जायेगा।

P. T. O.

- (ब) अवधि जिसमें भुगतान प्राप्त होगा।
 (स) अवधि जिसमें विनियोजित राशि की वसूली होगी।
 (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Payback period means :

- (a) Period in which payment is to be made.
 (b) Period in which amount is to be received.
 (c) Period in which amount of investment is recovered.
 (d) None of the above
4. एक प्रकल्प के शुद्ध रोक अन्तर्प्रवाह का सूत्र :
- (अ) विक्रय – संचालनीय व्यय
 (ब) कर पश्चात् का शुद्ध लाभ + अवक्षयण
 (स) विक्रय – संचालनीय व्यय – ब्याज – कर
 (द) उपर्युक्त सभी

Formula for net cash inflow of a project is :

- (a) Sales – operating expenses
 (b) Net profit after tax + Depreciation
 (c) Sales – Operating expenses – Interest – Tax
 (d) All of the above
5. निहित लागतें तब उदित होती हैं :
- (अ) जब कोष का अन्तर्प्रवाह होता है।
 (ब) जब कोषों का उपयोग होता है।
 (स) जब कोषों को प्राप्त किया जाता है।
 (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Implicit costs arise, when :

- (a) There is cash flow.
 (b) The funds are utilised.
 (c) The funds are acquired.
 (d) None of the above
6. यदि समता अंशों पर प्रति अंश अर्जन ₹ 1.5 हो तथा अंशों का बाजार मूल्य ₹ 15 हो, तो पूँजी की लागत होगी :
- (अ) 10%
 (ब) 9%
 (स) 11%
 (द) 8%
- It earning per share on equity shares is ₹ 1.5 and market value of shares is ₹ 15, cost of capital will be :
- (a) 10%
 (b) 9%
 (c) 11%
 (d) 8%
7. दिया गया है : 10% पूर्वाधिकारी अंश ₹ 100 वाले सम मूल्य पर निर्गमित, निर्गमन व्यय ₹ 2 प्रति अंश। कर पश्चात् पूर्वाधिकारी अंश पूँजी लागत होगी :
- (अ) 10%
 (ब) 10.2%
 (स) 20%
 (द) 20.4%

Given : 10% preference share of ₹ 100 issued at par value issue, expenses ₹ 2 per share. Cost of preference share capital after tax will be :

- (a) 10%
 - (b) 10.2%
 - (c) 20%
 - (d) 20.4%
8. एक कम्पनी द्वारा दस वर्ष पश्चात् शोधनीय ₹ 100 वाले 6% ऋणपत्र 10% अपहार पर निर्गमित किए गए हैं। ऋणपत्र पूँजी की लागत होगी :

- (अ) 6%
- (ब) 6.33%
- (स) 7%
- (द) 7.37%

A company has issued 6% debentures of ₹ 100 each at a discount of 10% repayable after 10 years. Cost of debenture capital is :

- (a) 6%
- (b) 6.33%
- (c) 7%
- (d) 7.37%

P. T. O.

9. वित्तीय लीवरेज का माप है :

(अ) $\frac{EAIT}{EBT}$

(ब) $\frac{EBIT}{EBT}$

(स) $\frac{EBIT}{EAT}$

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Financial leverage is measured by :

(a) $\frac{EAIT}{EBT}$

(b) $\frac{EBIT}{EBT}$

(c) $\frac{EBIT}{EAT}$

(d) None of the above

10. विक्रय ₹ 2,00,000; परिवर्तनशील लागत ₹ 1,40,000; स्थायी लागत ₹ 40,000; तो संचालनीय लीवरेज होगा :

(अ) 2

(ब) 2.5

(स) 3

(द) 5

Sales ₹ 2,00,000; variable cost ₹ 1,40,000; fixed cost ₹ 40,000; operating leverage will be :

- (a) 2
- (b) 2.5
- (c) 3
- (d) 5

11. विक्रय ₹ 2,00,000; परिवर्तनशील लागत ₹ 1,40,000; स्थायी लागत ₹ 40,000; ऋण पूँजी ₹ 1,00,000 जिस पर 10% ब्याज देय है। मिश्रित लीवरेज होगा :

- (अ) 2
- (ब) 3
- (स) 4
- (द) 6

Sales ₹ 2,00,000; variable cost ₹ 1,40,000; fixed cost ₹ 40,000; 10% interest on debt capital of ₹ 1,00,000. Combined leverage will be :

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

12. समता पर व्यापार का आशय है :

- (अ) पूँजी संरचना में कम समता पूँजी और अधिक दीर्घकालिक ऋण
- (ब) अधिक समता पूँजी और कम दीर्घकालीन ऋण
- (स) दोनों का बराबर होना
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Trading on equity means :

- (a) Less equity shares capital and more long-term loan in capital structure.
- (b) More equity share and less long-term loan.
- (c) Both are equal.
- (d) None of the above

13. लाभांश का आशय है :

- (अ) लाभ की मात्रा
- (ब) लाभ और पूँजी का अनुपात
- (स) लाभ का वह भाग जो अंशधारियों में बाँटा जाता है
- (द) उपर्युक्त सभी

Dividend means :

- (a) Volume of profit
- (b) Ratio of profit to capital
- (c) Portion of profit which is distributed to shareholders
- (d) All of the above

14. लाभों के पुनर्निवेश का प्रभाव होता है :

- (अ) विकास के लिए कोषों की उपलब्धता
- (ब) अंशों के मूल्य में वृद्धि
- (स) प्रति अंश आय तथा प्रति अंश लाभांश में वृद्धि
- (द) उपर्युक्त सभी

The effect of plough back of profit will be :

- (a) Availability of fund for development
- (b) Increase in value of shares
- (c) Increases in earning per share and dividend per share
- (d) All of the above

15. सुदृढ़ लाभांश नीति का आधार है :

- (अ) लाभों का विनियोग और लाभों के वितरण में समानता लाना
- (ब) विनियोजकों को आकर्षित करना
- (स) अधिलाभांश का भुगतान करना
- (द) लाभांश दर में स्थिरता रखना

Sound dividend policy is based on :

- (a) Symmetry between investment of profit and distribution of profit
- (b) Attracting the investors
- (c) Payment of bonus
- (d) Keeping dividend rate stable.

16. कम्पनी अधिनियम की कौन-सी धारा लाभांश वितरण को नियंत्रित करती है ?

- (अ) धारा 205
- (ब) धारा 230
- (स) धारा 350
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Which Section of Companies Act regulates the dividend distribution ?

- (a) Section 205
- (b) Section 230
- (c) Section 350
- (d) None of the above

17. व्यवसाय में नगद का स्तर प्रभावित होता है :

- (अ) क्रय और विक्रय की शर्तों से
- (ब) राजनैतिक परिस्थितियों से
- (स) वित्त प्रबंधक की इच्छा से
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Level of cash in a business is affected by :

- (a) Terms of purchase and sale
- (b) Political situations
- (c) Wishes of financial manager
- (d) None of the above

18. निम्नलिखित में किसका प्रभाव प्राप्यों पर विनियोग के आकार पर नहीं पड़ता ?

- (अ) साख विक्रय का स्तर
- (ब) विक्रयकर्ता का कमीशन
- (स) विक्रय की शर्तें
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Which of the following does not affect the size of investment in receivables ?

- (a) Level of credit sales
- (b) Salesmen's commission
- (c) Terms of sales
- (d) None of the above

19. दिया गया है—कुल वांछित मात्रा 6000 इकाइयाँ, प्रति आदेश 1000 इकाइयाँ, प्रति आदेश की लागत ₹ 30। बताइए कि कुल आदेश लागत क्या होगी ?

- (अ) ₹ 3,000
- (ब) ₹ 1,450
- (स) ₹ 180
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Given : Total quantity required 6000 units, quantity per order 1000 units, ordering cost ₹ 30 per order. Hence total ordering costs will be :

- (a) ₹ 3,000
- (b) ₹ 1,450
- (c) ₹ 180
- (d) None of the above

20. शुद्ध कार्यशील पूँजी बराबर :

- (अ) चल सम्पत्ति का चल दायित्व से कम होना
- (ब) चल सम्पत्ति का चल दायित्व से अधिक होना
- (स) चल सम्पत्ति का चल दायित्व के बराबर होना
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Net working capital is equal to :

- (a) Current assets is less than current liability
- (b) Current assets is more than current liability
- (c) Current assets is equal to current liability
- (d) None of the above

खण्ड—ब

(Section—B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर अधिकतम तीन वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

Attempt any *eight* questions in maximum three sentences.
Each question carries 2 marks.

1. वित्तीय निर्णय क्या है ?

What is financing decisions ?

2. पूँजी बजटन को परिभाषित कीजिए।

Define capital budgeting.

3. मिश्रित लागत क्या होती है ?

What is composite cost ?

4. ऋण पूँजी की लागत का क्या अर्थ है ?

What is meant by cost of debt capital ?

5. संचालनीय लीवरेज का क्या आशय है ?
What is the meaning of operating leverage ?
6. समता पर व्यापार क्या है ?
What is trading on equity ?
7. लाभांश को परिभाषित कीजिए।
Define Dividend.
8. लाभांश भुगतान अनुपात क्या होता है ?
What is dividend pay-out ratio ?
9. सकल कार्यशील पूँजी का अर्थ बताइए।
State the meaning of gross working capital.
10. स्कंधन में क्या शामिल किया जाता है ?
What are included in inventory ?

खण्ड—स

(Section—C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।

Answer any *eight* questions in about 75 words. Each question carries 3 marks.

1. वित्त कार्य का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है ?
What is the modern approach of finance function ?

2. पूँजी बजटन की क्या आवश्यकता है ?
What is the need of Capital Budgeting ?
3. पूँजी की लागत को परिभाषित कीजिए।
Define cost of capital.
4. “प्रतिधारित आय की कोई लागत नहीं होती।” समझाइए।
“Retained earnings do not involve any cost.” Explain.
5. वित्तीय लीवरेज क्या है ?
What is Financial Leverage ?
6. एक सुदृढ़ पूँजी मिश्रण की क्या विशेषताएँ होती हैं ?
What are the essentials of a sound capital mix ?
7. स्थिर लाभांश का क्या महत्व है ?
What is the significance of stable dividends ?
8. अधिलाभांश अंश निर्गमन के स्रोत बताइए।
Give the sources of issue of bonus shares.
9. कार्यशील पूँजी की अवधारणा क्या है ?
What is concept of working capital ?
10. प्राप्यों से आपका क्या अभिप्राय है ?
What do you mean by Receivables ?

खण्ड—द

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द-सीमा 150 शब्द। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

Attempt any *four* questions. Word limit 150 words. Each question carries 5 marks.

1. वित्तीय प्रबन्ध क्या है ? वित्तीय प्रबन्ध के उद्देश्य समझाइए।

What is Financial Management ? Explain the objective of financial management.

2. एक परियोजना ₹ 6,00,000 लागत की है और यह 12.5% वार्षिक ऋण के पश्चात् किन्तु 50% कर के पूर्व ₹ 90,000 का वार्षिक लाभ उत्पन्न करती है। पुनर्भुगतान अवधि की गणना कीजिए।

A project costs ₹ 6,00,000 and yields annually a profit of ₹ 90,000 after depreciation of 12.5% p.a. but before tax at 50%. Calculate payback period.

3. पूँजी की लागत क्या होती है ? पूँजी की लागत का महत्व स्पष्ट कीजिए।

What is cost of capital ? Explain the significance of cost of capital.

P. T. O.

4. परिचालन व वित्तीय लीवरेज में अन्तर बताइए।

Distinguish between operating and financial leverage.

5. पूँजी दन्तीकरण से आप क्या समझते हैं ? इसका क्या महत्व है ?

What do you understand by capital gearing ? What is its significance ?

6. लाभांश के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

Discuss the various forms of dividend.

7. पर्याप्त कार्यशील पूँजी के क्या लाभ होते हैं ?

What are the advantages of adequate working capital ?

8. आर्थिक आदेश मात्रा का क्या अभिप्राय होता है ?

What is meant by economic order quantity ?